



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258495
CG-DL-E-06112024-258495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 901]
No. 901]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2024/कार्तिक 15, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2024/KARTIKA 15, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

[संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2024

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 13-सीए (परीक्षा)/नवंबर/2024/III.—संस्थान की अधिसूचना संख्या 13-सीए (परीक्षा)/नवंबर/2024 दिनांक 29 जुलाई 2024, तथा संख्या 13-सीए (परीक्षा)/नवंबर/2024/II दिनांक 1 अक्टूबर 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि झारखंड विधान सभा के आम चुनाव तथा अन्य राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के कारण हजारीबाग (झारखंड), जमशेदपुर (झारखंड), रांची (झारखंड), रायपुर (छत्तीसगढ़) और झुझुनू (राजस्थान) में 13 नवंबर, 2024 (बुधवार) को आयोजित होने वाली चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाइनल परीक्षा, ग्रुप II, प्रश्न पत्र - 6, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस (मल्टी-डिसिप्लिनरी केस स्टडीज) को पुनर्निर्धारित किया गया है और उक्त प्रश्न पत्र की परीक्षा अब 14 नवंबर 2024 (गुरुवार) को उपरोक्त वर्णित 5 शहरों में उसी समय यानी दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक और उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में पहले से जारी प्रवेश पत्र संशोधित तिथि के लिए मान्य होंगे।

इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि संस्थान की महत्वपूर्ण घोषणा संख्या 13-सीए (परीक्षा)/नवंबर/2024 दिनांक 18 जुलाई 2024 के माध्यम से घोषित परीक्षाओं का कार्यक्रम, उसके बाद अन्य सभी शहरों और तिथियों के संबंध में दिनांक 24 सितंबर 2024 की महत्वपूर्ण घोषणा अपरिवर्तित रहेगी। दूसरे शब्दों में, अन्य शहरों और तिथियों के लिए परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त बातों पर ध्यान दें और संस्थान की वेबसाइट www.icai.org के संपर्क में रहें।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./670/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

[Set up by an Act of Parliament]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2024

(Chartered Accountants)

No. 13-CA (EXAM)/NOVEMBER/2024/III.—In partial modification of the Institute's Notification No. 13-CA (EXAM)/NOV./2024 dated 29th July 2024, and No. 13-CA (EXAM)/NOV./2024/II dated 1st October 2024, it is notified for general information that due to general election to the Legislative Assembly of Jharkhand and Bye – Election to Assemblies Constituencies/Parliamentary Constituencies in other States on **13th November 2024 (Wednesday)**, the Chartered Accountants Final Course Examination, Group II, Paper – 6, Integrated Business Solutions (Multi-Disciplinary Case Studies) scheduled to be held on 13th November, 2024 (Wednesday) in Hazaribagh (Jharkhand), Jamshedpur (Jharkhand), Ranchi (Jharkhand), Raipur (Chhattisgarh) and Jhunjhunu (Rajasthan) stands re-scheduled and the examination in the said paper shall now be held on **14th November 2024 (Thursday) at the same timing(s) i.e. 2 PM to 6 PM and at same Examination Centre(s) in the above 5 cities**. Admit Card already issued in this regard will be valid for the revised date.

Further, it is clarified that the schedule of examinations announced vide Institute's Important Announcement No. 13-CA (EXAM)/NOV./2024 dated 18th July 2024, followed by Important Announcement dated 24th September 2024 in respect of all other cities and dates shall remain unchanged. In other words, there will be no change in the schedule of examinations for other cities and dates.

The Candidates are advised to note the above and stay in touch with the website of the Institute, www.icai.org.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./670/2024-25]